

अर्थ गंगा परियोजना

हाल ही में राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मशिन के महानदिशक ने वशिव जल सप्ताह 2022 के दौरान अर्थ गंगा परियोजना के संदर्भ में चर्चा की।

अर्थ गंगा परियोजना

परिचय:

- 'अर्थ गंगा' का तात्पर्य गंगा से संबंधित आर्थिक गतिविधियों पर ध्यान देने के साथ सतत विकास मॉडल विकसित करना है।
- दिसंबर 2019 में संपन्न हुई राष्ट्रीय गंगा परिषद (National Ganga Council- NGC) की प्रथम बैठक में प्रधानमंत्री ने गंगा नदी से संबंधित आर्थिक गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करने के साथ ही 'नमामि गंगे' परियोजना को 'अर्थ-गंगा' जैसे सतत विकास मॉडल में परिवर्तित करने का आग्रह किया था।
- **अर्थ गंगा के तहत सरकार छह कार्यक्षेत्रों पर काम कर रही है:**
 - पहला जीरो बजट प्राकृतिक खेती है, जिसमें नदी के दोनों ओर 10 कमी. तक रासायनिक मुक्त खेती और **गोबर-धन योजना** के माध्यम से खाद के रूप में गोबर को बढ़ावा देना शामिल है।
 - दूसरा कचरा और अपशिष्ट जल का मुद्रीकरण एवं पुनः उपयोग करना है, जिसमें शहरी स्थानीय निकायों (ULB) के लिये सचिाई, उद्योगों तथा राजस्व सृजन हेतु उपचारित जल का पुनः उपयोग करना शामिल है।
 - अर्थ गंगा में हाट बनाकर आजीविका सृजन के अवसर भी शामिल होंगे जहाँ लोग स्थानीय उत्पाद, औषधीय पौधे और आयुर्वेदिक उत्पाद बेच सकते हैं।
 - चौथा है नदी से जुड़े हतिधारकों के बीच तालमेल बढ़ाकर **जनभागीदारी बढ़ाना**।
 - मॉडल नाव पर्यटन, साहसिक खेलों और योग गतिविधियों के माध्यम से गंगा एवं उसके आसपास की सांस्कृतिक वरिसत तथा पर्यटन को बढ़ावा देगा।
 - मॉडल उचित जल प्रशासन के लिये स्थानीय प्रशासन को सशक्त बनाकर संस्थागत विकास को बढ़ावा देगा।

वशिव जल सप्ताह

- **जल सप्ताह वैश्विक जल मुद्दों पर वार्षिक सम्मेलन है जो प्रत्येक वर्ष अगस्त के अंतिम सप्ताह में आयोजित किया जाता है।**
- इसका आयोजन वर्ष 1991 में शुरू किया गया था और प्रारंभ में स्वीडिश राजधानी स्टॉकहोम में सार्वजनिक जल उत्सव का हिस्सा था।
- **स्टॉकहोम अंतरराष्ट्रीय जल संस्थान (SIWI)** वशिव जल सप्ताह का आयोजक है।
- वशिव जल सप्ताह **जलवायु संकट, खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा और कई अन्य वषियों जैसी चुनौतियों के जल पहलुओं का पता लगाने का अवसर है।**
- इस सप्ताह को **सतत विकास लक्ष्य 6 (SDG6)** की दशा में चर्चा और प्रगति में तेज़ी लाने के अवसर के रूप में भी देखा जाता है, जो सभी के लिये **स्वच्छ जल और स्वच्छता** को सुनिश्चित करने का लक्ष्य प्रदान करता है।
- **वशिव जल सप्ताह 2022** का वषिय "सीईंग द अनसीन: द वैल्यू ऑफ वाटर" (Seeing the Unseen: The Value of Water) है।
 - वषिय **तीन मुख्य क्षेत्रों**, लोगों के बीच जल का मूल्य और विकास; प्रकृति और जलवायु परिवर्तन के संबंध में जल का मूल्य; और जल के आर्थिक और वित्तीय मूल्य को संबोधित करता है।

नमामि गंगे कार्यक्रम:

- नमामि गंगे कार्यक्रम एक एकीकृत संरक्षण मशिन है, जिसे **जून 2014** में केंद्र सरकार द्वारा '**फ्लैगशिप कार्यक्रम**' के रूप में अनुमोदित किया गया था, ताकि प्रदूषण के **प्रभावी उन्मूलन और राष्ट्रीय नदी गंगा के संरक्षण एवं कायाकल्प** के दोहरे उद्देश्यों को पूरा किया जा सके।
- यह जल संसाधन मंत्रालय, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग तथा **जल शक्ति मंत्रालय** के तहत संचालित किया जा रहा है।
- यह कार्यक्रम **राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मशिन (NMCG)** और इसके राज्य समकक्ष संगठनों यानी राज्य कार्यक्रम प्रबंधन समूहों (SPMGs) द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है।
- **NMCG राष्ट्रीय गंगा परिषद की कार्यान्वयन शाखा** है, यह वर्ष 2016 में स्थापित किया गया था जिसने राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण (NGRBA) को प्रस्थापित किया।
- इसके पास 20,000 करोड़ रुपए का केंद्रीय वित्तपोषित, गैर-व्यपगत कोष है और इसमें लगभग 288 परियोजनाएँ शामिल हैं।
- **कार्यक्रम के मुख्य स्तंभ:**
 - सीवेज ट्रीटमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर

- रविर फ्रंट डेवलपमेंट
- नदी-सतह की सफाई
- जैव विविधता
- वनीकरण
- जन जागरण
- औद्योगिक प्रवाह नगिरानी
- गंगा ग्राम

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्षों के प्रश्न

प्रश्न. नमिनलखिति में से कौन-सी 'राष्ट्रीय गंगा नदी बेसनि प्राधकिरण (NGRBA)' की प्रमुख वशिषताएँ हैं??

1. नदी बेसनि, योजना एवं प्रबंधन की इकाई है।
2. यह राष्ट्रीय स्तर पर नदी संरक्षण प्रयासों की अगुवाई करता है।
3. NGRBA का अध्यक्ष चक्रानुक्रमिक आधार पर उन राज्यों के मुख्यमंत्रियों में से एक होता है, जनिसे होकर गंगा बहती है।

नीचे दयि गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनयि:

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 2 और 3
- (c) केवल 1 और 3
- (d) 1, 2 और 3

उत्तर: (a)

व्याख्या:

- केंद्र सरकार ने 20 फरवरी, 2009 को पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए गंगा नदी के लयि एक सशक्त योजना, वलितपोषण, नगिरानी और समन्वय प्राधकिरण के रूप में 'राष्ट्रीय गंगा नदी बेसनि प्राधकिरण' (NGRBA) की स्थापना की थी।
- प्रधानमंत्री प्राधकिरण के पदेन अध्यक्ष होते हैं और इसके सदस्यों के रूप में संबंधित केंद्रीय मंत्री तथा उन राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होते हैं जनिसे होकर गंगा नदी प्रवाहति होती है जैसे- उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बहिर, झारखंड और पश्चिम बंगाल आदि। **अतः 3 सही नहीं है।**
- **प्रमुख वशिषताएँ:**
 - नदी बेसनि योजना और प्रबंधन की इकाई है तथा यह नदियों के एकिकृत प्रबंधन के लयि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत रणनीति है। **अतः कथन 1 सही है।**
 - NGRBA राष्ट्रीय स्तर पर नदी संरक्षण के प्रयासों का नेतृत्व करेगा तथा इसका कार्यान्वयन राज्य एजेंसियों और शहरी स्थानीय नकियों द्वारा कयि जाएगा। **अतः कथन 2 सही है।**
 - यह जल की प्रतसिपर्द्धी मांगों को ध्यान में रखकर न्यूनतम पारस्थितिकि प्रवाह सुनिश्चति करने का प्रयास करेगा।
 - ठोस अपशषिट उपचार संयंत्रों को करयिशील बनाया जाएगा ताक प्रदूषण भार को 30 मलीग्राम/लीटर के BOD के नरिवहन मानक तक कम कयि जा सके, जसिसे नदी के पानी की गुणवत्ता 3 मलीग्राम/लीटर प्राप्त

[स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस](#)